

an>

Title: Madam Speaker welcomed His Excellency Mr. Sergey Naryshkin, Chairman of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation and the Members of the Russian Parliamentary Delegation.

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have to make an announcement.

On my own behalf and on behalf of the hon. Members of the House, I have great pleasure in welcoming His Excellency Mr. Sergey Naryshkin, Chairman of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation and the Members of the Russian Parliamentary Delegation who are on a visit to India as our honoured guests.

They arrived in India on Wednesday, 25th February, 2015 and are now seated in the Special Box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. Through them we convey our greetings and best wishes to the Parliament, the Government and the friendly people of the Russian Federation. Thank you.

â€œ! (Interruptions)

श्री मत्लिकार्जुन सङ्को (गुलबग़ा) : महोदया, हाउस को डिस्टर्ब करने का या विजेस को स्थगित करने का छमारा उद्देश्य नहीं है। छमारा उद्देश्य यही है कि कल जो डिबेट हुई, वे सीनियर नेता हैं, वीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, वीजेपी के सीनियर टीडर हैं। मैं उनसे यह अपेक्षा करता था, वर्षोंकि, वे पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इसलिए उनका छम से श्री ज्यादा कर्तव्य है कि सभी को साथ लेकर चर्चा किसीसाइज करना चाहिए है। आप श्री कर सकते हैं, छम श्री कर सकते हैं, तोकिन किसी व्यक्तिको यह अधिकार नहीं है। एक कलावत है, आइरिश पैट्रीयोट ने यह कहा है-

"No man will be grateful at the cost of his honour; no woman can be grateful at the cost of her chastity; and no country can be grateful at the cost of its liberty."

यह छमारे अँनर का सवाल है। आपने इस छंग से बात की। श्री.पी.आई. यानि कंज्यूर्स प्राइज इंडेवर्स...(व्यवधान) अब आप इसे ठीक समझते हैं तो मैं इसको अवश्यैष करता हूँ। आप श्री.पी.आई. नहीं कंज्यूर प्राइज इंडेवर्स कहिए। आपने कर्णालियि कहा, जो वहां है और You are not better than the Congress. हर एक को इस तरह से लोका भवा। वहा यह आपके प्रोग्राम में है, वहा आपके कार्यक्रम में है, वहा यह कम्पैशन है? इसीलिए मैं यह बालाका हूँ As a senior leader, he should express his regret. वर्षोंकि अब यह ऐसा नहीं कहेंगे तो ऐसे ही बताता जाएगा।...(व्यवधान) इससे कल को यही प्रैविटस बलेंगी और छम यह बर्दाष्ट नहीं करेंगे।(व्यवधान) Such things should not happen in this House. So, we want his regret on this.

माननीय अध्यक्ष : खरगे जी, जब उन तक आप सभी की आवाजा पहुँची कि आप हर्ट ट्रुए हैं, कल श्री आप बाहर चले गए थे तो उन्होंने स्वयं खड़े हो कर कहा है कि ऐसा उनके मन में नहीं था। आप ऐसा मत सोचिए। मुझे लगता है कि छम इस बात को यहीं समाप्त करते हैं, यहीं मेरा आप सभी से नियेटन है।

â€œ!(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, the Question Hour. Question No. 41.

... (Interruptions)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Madam, Question No. 41. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: On his own he has said something.

... (Interruptions)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Madam, all the political parties are hurt....(Interruptions)

HON. SPEAKER: Yes, I know it. I know all the political parties are hurt. That is why, the message has been conveyed to him. That is why, he himself said something.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: It is not like that. Every now and then, from everybody if you expect sorry, it is not proper. It should not be so.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आपके साथ श्री रोज-रोज सॉरी कहने की वही बात होगी।

He himself has said it.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने कठ दिया, प्लीज बहस मत करिये।

â€œ!(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यहीं उनका बड़प्पन है, उन्होंने यह श्री समझा कि छं, आपकी आवाजाएं हर्ट ट्रुई, उन्होंने सुन आकर मुझे कहा कि मैं बोलने वाला हूँ, यह हुआ है। अब वहा है?

â€œ!(व्यवधान)

માનનીય અધ્યક્ષ : વર્ષાસન નંબર 41, શ્રી રામ મનોહર નાથદૂ કિંજયાપું

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: He has not said that.

11.11 hrs

At this stage, Shri Jyotiraditya M. Scindia and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

HON. SPEAKER: It is not proper.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: He has not said that....(Interruptions)

11.12 hrs

At this stage, Shri Mohammad Salim, Dr. A. Sampath and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

HON. SPEAKER: I am sorry. This is not proper. What do you mean? When he has said that he has nothing in his mind, it is one and the same thing.

...(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam, this is unacceptable. The point here is that the hon. Minister of Parliamentary Affairs, on his own, has come forth and explained the position.â€ (Interruptions)

They are trying to make an issue out of it...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I am sorry, please go back to your seats.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: It is all politics rather than a choice. This is a political exercise. The Government as also the hon. Minister has completely explained the position....(Interruptions)